

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

दिल्ली राजपत्र

Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-06082024-256103
SG-DL-E-06082024-256103असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 206]	दिल्ली, सोमवार, अगस्त 5, 2024/ श्रावण 14, 1946	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 148
No. 206]	DELHI, MONDAY, AUGUST 5, 2024/ SHRAVANA 14, 1946	[N. C. T. D. No. 148

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHIगृह रक्षक निदेशालय
(गृह विभाग)
अधिसूचना

दिल्ली, 5 अगस्त, 2024

फा. सं. स्था. 3(156)/एचजी/2017/5342/1745.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना सं० जी०एस०आर० 840 के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिनांक 12 अक्टूबर, 1995 की अधिसूचना संख्या फा० 1/32/94/गृह (सा०)/5639 के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या विलोप की जाने वाली संबंधित बातों को छोड़कर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद् द्वारा गृह रक्षक महानिदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में मल्टी टास्किंग स्टाफ (एमटीएस) के पद हेतु भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं; अर्थात् :-

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :-

- इन भर्ती नियमों को गृह रक्षक महानिदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में मल्टी टास्किंग स्टाफ (एमटीएस) भर्ती नियमावली, 2024 कहा जाए।
- ये दिल्ली राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर :- उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम सं० (2) से (4) में विनिर्दिष्ट होंगे।

3. उक्त पदों की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, अन्य योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम सं० (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
4. **अयोग्यता :-** वह व्यक्ति,
 (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; अथवा
 (ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह की संविदा कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
- शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं, तो वह किसी ऐसे व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकती है।
5. **शिथिल करने की शक्ति :-** जहां राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह सेवाएं विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से परामर्श करके, कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए, आदेश द्वारा व्यक्तियों के किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन नियमों के किसी उपबंध को छूट दे सकती है।
6. **बचाव :-** इन नियमों में निहित भारत सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसरण में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये उपबंधित किए जाने वाले अपेक्षित आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

1.	पदनाम	:	मल्टी टास्किंग स्टाफ (एमटीएस)
2.	पदों की संख्या	:	43* (2024) * परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर
3.	वर्गीकरण	:	सामान्य केंद्रीय सेवा, अराजपत्रित/अलिपिकीय, समूह-‘ग’
4.	पे बैंड तथा ग्रेड पे/वेतनमान	:	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1 (रुपये 18,000-56,900/-)
5.	चयन पद है अथवा गैर चयन पद	:	लागू नहीं
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	:	18-25 वर्ष* के बीच (केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसरण में सरकारी उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा चालीस (40) वर्ष तक शिथिलनीय।) टीप : आयु सीमा निर्धारण हेतु निर्णायक तिथि दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड/सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथा विज्ञापित होगी। * यदि अखिल भारतीय खुली प्रतियोगिता द्वारा पदों को भरा जाना हो, तो आयु सीमा 18-27 वर्ष के बीच होगी।
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं	:	दसवीं कक्षा उत्तीर्ण
8.	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	:	लागू नहीं
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	:	02 वर्ष
10.	भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	:	सीधी भर्ती द्वारा
11.	यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण/समावेशन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण/समावेशन	:	लागू नहीं

	किया जाना है		
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो, तो डीपीसी (पदोन्नति/स्थायीकरण के विचारार्थ) समूह 'ग' से समूह 'ख' की पदोन्नति हेतु इसकी संरचना क्या है?	:	<p>स्थायीकरण मामलों के विचारार्थ समूह 'ग' विभागीय स्थायीकरण समिति</p> <p>1. प्रधान सचिव/सचिव (ऊर्जा) – अध्यक्ष</p> <p>2. संबंधित विभागाध्यक्ष – सदस्य</p> <p>3. उप-सचिव (वित्त) – सदस्य</p> <p>टीप :- यदि विभागीय स्थायीकरण समिति का अधिसूचित अध्यक्ष विभागीय स्थायीकरण समिति के किसी भी अन्य सदस्य से कनिष्ठ है, तो विभागीय स्थायीकरण समिति का वरिष्ठतम सदस्य अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।</p>
13.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	:	लागू नहीं

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल

के आदेश से तथा उनके नाम पर,

राजीव कुमार त्यागी, उप-सचिव

DIRECTORATE OF HOME GUARDS

(Home Department)

NOTIFICATION

Delhi, the 5th August, 2024

F. No. Estt. 3(156)/HG/2017/5342/1745.—In exercise of powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India read with Govt. of India, Ministry of Home Affairs notification GSR-840 dated. 13th July, 1959 and in supersession notification no.F.1/32/94/Home(G)/5639 dated 12th October, 1995 except as respective things done or omitted to be done before such supersession, the Lt, Governor of National Capital Territory of Delhi, is pleased to make the following rules regulating the method of Recruitment for the post of Multi-Tasking Staff (MTS) in the Directorate General of Home Guards, Government of National Capital Territory of Delhi.

1. Short title and commencement:-

- These Recruitment Rules may be called the Multi-Tasking Staff (MTS) in the Directorate General of Home Guards, Government of NCT of Delhi, Recruitment Rules, 2024.
- They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. Number of Posts, classification and level in pay matrix:-

The number of said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be specified in Column No. (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, other qualification and other matters relating to the said post shall be as specified in Column No. (5) to (13) of the said schedule.

4. Disqualification:-

No person;

- Who has entered into or contracted marriage with a person having a spouse living; or
- Who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to any of the said posts;

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such persons and the other party to the marriage and that there are other grounds for doing so, Exempt any person from the operation of these Rules.

5. Power to relax:-

Where the Government of National Capital Territory of Delhi is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reason to be recorded in writing, in consultation with the Services Department, Govt. of National Capital Territory of Delhi relax any of the provisions of these Rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving:-

Nothing contained in these Rules shall effect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Schedule castes, Schedule Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special Categories of persons in accordance with orders issued by the Government of India from time to time, in this regard.

SCHEDULE

Name of Post	No. of the Post	Classification	Pay Band and Grade Pay/ Pay Scale	<u>Selection or Non Selection</u>	Age limit for direct recruitment	Educational and other qualifications for direct recruitment
1	2	3	4	5	6	7
Multi-Tasking Staff (MTS)	43*(2024) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Non-Gazetted/Non-Ministerial, Group "C"	Level-1 Rs.18,000-56,900) of the Pay Matrix.	Not Applicable	Between 18 to 25 years* (The Upper age-limit is Relaxable for Government Candidates upto Forty (40) years in accordance with the instruction or orders issue by the Central Government). Note:- The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by DSSSB/ Competent Authority. *In case of post being filled up by all-India Open Competition, the age limit would be between 18 year and 27 years.	10 th class Pass

Whether age limit, educational qualifications prescribed for Direct recruitment will apply in case of promotes.	Period of probation, if any	Method of recruitment Whether by Direct recruitment or by promotion or by deputation /transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer/absorption grades from which promotion /deputation / transfer/absorption to be made
8	9	10	11
Not Applicable	Two Years	By Direct Recruitment	Not Applicable

If a Departmental promotion committee exists what is its compo For promotion from Group 'C' to Group 'B' DPC (for considering promotion/confirmation)	Circumstances in which UPSC to be consulted in making recruitment is consulted.
12	13
Group 'C' Departmental Confirmation Committee for considering confirmation cases) : 1.Principal Secretary/Secretary (Power) - Chairman 2.Head of Department Concerned - Member 3.Deputy Secretary (Finance) - Member	Not Applicable.

Note: Senior most member of the Departmental Confirmation Committee shall act as Chairperson in case the notified Chairperson of the Departmental Confirmation Committee happens to be junior to another member of the Departmental Confirmation Committee.	
--	--

By Order and in the Name of the Lt. Governor National
of the Capital Territory of Delhi,

RAJIV KUMAR TYAGI, Dy. Secy.